

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 104]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 फरवरी 2014—फाल्गुन 5, शक 1935

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2014

क्र. रास.-यूए.-5-2013-206.—राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (दस) के अन्तर्गत इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक 988-रास-यूए.-5-2013, दिनांक 12 सितम्बर 2013 द्वारा डॉ. एन. एस. राठौर, डिप्टी डायरेक्टर जनरल (इंजी.), कृषि अनुसंधान भवन-2, पूसा, नई दिल्ली को विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य अधिसूचित किया गया था.

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (दस) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपतिजी द्वारा उक्त अधिसूचना के अनुक्रम में डॉ. के. के. सिंह, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल (पीई), अनुसंधान भवन, नई दिल्ली को विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का नामनिर्दिष्ट सदस्य मनोनीत किया जाता है.

कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आदेशानुसार,
शैलेन्द्र क्रियावत, राज्यपाल के उपसचिव.